

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 नवम्बर 2019—कार्तिक 11, शक 1941

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2019

क्र. 2326-2622-2018-दस-2.—यतः, पातालकोट, मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले में स्थित है एवं प्रस्तावित स्थल वृत्त छिन्दवाड़ा (पूर्व एवं पश्चिम छिन्दवाड़ा वन मण्डल) वन विभाग, मध्यप्रदेश के स्वामित्व के अधीन संरक्षित वन के 8367.49 हेक्टेयर में फैला हुआ है.

और, यतः, प्रस्तावित स्थल 1700 फीट गहरी घाटी तथा 6 मिलियन वर्ष की अनुमानित आयु, पारिस्थितिकीय एवं दुर्लभ वनस्पति एवं प्राणियों, जिसमें ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स भी सम्मिलित हैं, वाला अनूठा भू-भाग रखता है.

और, यतः, स्थानीय समुदाय विशेषकर भारिया जनजाति को जंगली पौधों एवं जड़ी बूटियों का दुर्लभ पारंपरिक ज्ञान है जिसका उपयोग वे प्रभावी औषधियाँ बनाने में करते हैं.

और, यतः, पारिस्थितिकीय एवं जैव विविधता की दृष्टि से ऐसे क्षेत्र, विस्तार तथा सीमाओं को जो इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाना आवश्यक है.

अतएव, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 37 की उपधारा (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 22 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, स्थानीय निकायों तथा अन्य प्रमुख धारकों के परामर्श से, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, एतद्वारा, पातालकोट को नीचे दी गई अनुसूची में ब्यौरों के अनुसार, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करता है :—

अनुसूची

क्र (1)	नाम (2)	क्षेत्र (3)	अवस्थिति (4)	अधिकारिता (5)
1.	पातालकोट	4305.25 हेक्टेयर	खण्ड क्रमांक— पी-811, पी-812, पी-813, पी-814, पी-815, पी-816, पी-817, पी-818, पी-819, पी-820, पी-821, पी-822.	बीट-छिंदी परिक्षेत्र-छिंदी उप-मण्डल-छिन्दवाड़ा मण्डल—पूर्व वनमंडल, छिन्दवाड़ा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	पातालकोट	4062.24 हैक्टेयर	खण्ड क्रमांक— पी-172, पी-173, पी-186, पी-187, पी-188, पी-189, पी-190, पी-191, पी-192, पी-193, पी-194, पी-195, पी-197, पी-198, पी-196 (ए+बी)	बीट-तामिया परिक्षेत्र-तामिया उप-वनमण्डल-छिन्दवाड़ा वनमण्डल—पूर्व वनमंडल, छिन्दवाड़ा.

मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड वन विभाग के सहयोग से निम्नलिखित कार्य करेगा:—

1. जैव विविधता विरासत स्थल की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं प्राणियों के संरक्षण हेतु प्रबंधन योजना तैयार करना.
2. जैव विविधता संरक्षण हेतु वन विभाग के अग्रपंक्ति के अमले, वनवासियों तथा आदिवासियों की क्षमता वृद्धि कार्यक्रम करना.
3. अंतर स्थलीय एवं बाह्य-स्थलीय संरक्षण से प्रजातियों का संवर्धन करना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2019

क्र. 2326-2622-2018-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2326-2622-2018-दस-2, दिनांक 31 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

Bhopal, the 31st October 2019

No. R-2326-2622-2018-X-2.—WHEREAS, the Patalkot is located in Chhindwara district of Madhya Pradesh and the proposed site is spread over 8367.49 hectare area of protected forest under the ownership of Chhindwara forest circle (East and West Chhindwara Forest Division), Madhya Pradesh Forest Department;

AND, WHEREAS, the proposed site has unique and varied terrain of 1700 feet deep valley and ecosystem of estimated age of 6 Million years and species of rare flora and fauna including rare Bryophytes and Pteridopytes;

AND, WHEREAS, the local community especially Bharia tribe has unique traditional knowledge of forest plants and herbs which they use to make effective medicine;

AND, WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in the Schedule of this notification as the Biodiversity Heritage Site from ecological and biodiversity point of view;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 37 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) and read with sub-rule (1) of Rule 22 of the Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004 in consultation with the local bodies and other key holders, the Madhya Pradesh State Biodiversity Board, hereby, notifies Patalkot as Biodiversity Heritage Site as detailed in the Schedule below :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name (2)	Area (3)	Location (4)	Jurisdiction (5)
1.	Patalkot	4305.25 Hectare	Compartment No. P-811, P-812, P-813, P-814, P-815, P-816, P-817, P-818, P-819, P-820, P-821, P-822	Beat—Chhindi Range—Chhindi Sub-Division—Chhindwara Division—East Forest Division Chhindwara.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Patakot	4062.24 Hectare	Compartment No. P-172, P-173, P-186, P-187, P-188, P-189, P-190, P-191, P-192, P-193, P-194, P-195, P-197, P-198, P-196 (A+B)	Beat —Tamia Range —Tamia Sub-Division —Chhindwara Division —West Forest Division Chhindwara.

The Madhya Pradesh State Biodiversity Board shall undertake the following in collaboration with Forest Department :—

1. The Management Plan for conservation of the natural flora and fauna of the Biodiversity Heritage Site area.
2. Capacity building programme(s) for front line staff of Forest Department, Eco-Tourism Programme, Forest Dwellers and Tribal's to conserve biodiversity.
3. The propagation of species for In-situ and Ex-situ conservation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. S. MOHANTA, Secy.